REGENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office:-E-205 (LGF), Greater Kailash II, New Delhi-110048, India Telephone no. 011-29213191, Email: info@regententerprises.in
Fax No. 011-24338696; Website: www.regententerprises.in
CIN-L15500DL1994PLC153183

Date: August 15th, 2020

To,
The Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Phiroze Jeejebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001
Script code: 512624

SUB: Notice of Board Meeting - Advertisement

Dear Sir/Madam,

In Continuation to our letter dated 14th August 2020 with regard to intimation of the Board Meeting scheduled to be held on August 24th, 2020. Please find enclosed herewith a copy of advertisement Published in "The Pioneer" New Delhi (English edition) at Page No.09 and "Pioneer" New Delhi (Hindi Edition) at Page Number 10 on 15th August 2020.

You are requested to please take note of the same on your record

Thanking You,

For REGENT ENTERPRISES LIMITED

KAPIL ARORA

Kapil Arora.

Company Secretary & Compliance Officer

M.No. - A57885

RBI to pay ₹57,128 cr dividend to Govt | WPI inflation falls 0.58%

The Reserve Bank of India board on Friday approved a dividend payout of Rs 57,128 crore to the government, a move in line with the Budget expectation but may not help plug a huge revenue hole created by the pandemic and slowing economy.

The surplus transfer of Rs 57,128 crore for the accounting year 2019-20 compared with Rs 1.76 lakh crore transferred last year, which included Rs 1.23 lakh crore as dividend and Rs 52,637 crore excess provisions identified

Equity indices nursed losses for the third straight session on Friday as

investors pruned exposure to banking,

financial and consumption stocks amid

depreciating rupee further curbed risk

high, the 30-share BSE Sensex settled

433.15 points or 1.13 per cent lower at

122.05 points or 1.08 per cent to close

Sensex pack, slipping 2.81 per cent, followed by SBI, M&M, Bajaj Finance, ITC, HDFC Bank, HCL Tech and

in the green — Sun Pharma, NTPC,

Tata Steel, Titan and Infosys, rising up

to 2.04 per cent. During the week, the

Sensex declined 163.23 points or 0.42

per cent, while the Nifty fell 35.65 points

al cues in the latter part of the trading

day to end with losses. The uncertain-

ty was with regards to the US-China

trade meet this weekend and a lack of

wholesome pickup in economic activ-

ity in many countries, including China.

bers that came in above the MPCs" tar-

get also put doubt on expected rate cuts by the RBI, which the market was look-

ing forward to. Weak results especially

in the Auto sector also contributed to

the losses," said Vinod Nair, Head of

Research at Geojit Financial Services.

in July, mainly driven by rising prices

of food items like vegetables, pulses,

Retail inflation rose to 6.93 per cent

'The Indian retail inflation num-

"Indian markets tracked weak glob-

Weak macroeconomic data and a

Tanking 663 points from the day's

The broader NSE Nifty slumped

Axis Bank was the top laggard in the

Only five index constituents ended

negative global cues.

appetite, traders said.

37,877.34

at 11,178.40.

IndusInd Bank.

or 0.31 per cent.

Capital Framework (ECF).

In a statement, the RBI said its central board headed by Governor Shaktikanta Das "reviewed the current economic situation, continued global and domestic challenges and the monetary, regulatory, and other measures taken by RBI to mitigate the economic impact of COVID-19 pandemic".

"The Board also approved the transfer of Rs 57,128 crore as surplus to the Central Government for the accounting year 2019-20, while deciding to maintain the Contingency Risk

meat and fish, official data released post

gas, FMCG and telecom indices fell up

to 2.50 per cent in Friday's session,

while metal, healthcare and consumer

Broader BSE mid-cap and small-cap

Global equities were under pressure

Stock exchanges in Paris, Frankfurt

Global oil benchmark Brent crude

following lacklustre industrial produc-

Bourses in Hong Kong and Seoul ended in the red, while Shanghai and

and London plunged up to 2 per cent

in early deals, dragged by travel stocks,

after the UK added more European

was trading 0.65 per cent lower at USD

44.67 per barrel. In the forex market, the

rupee settled 6 paise lower at 74.90

₹ settles 6 paise lower

at 74.90 against US \$

Mumbai: The rupee on Friday slid 6

paise to end at 74.90 against US dollar

as data showing slow economic recov-

ery and higher inflation dampened forex

local unit opened at 74.85 and then lost

further ground to settle at 74.90, registering a decline of 6 paise over its previous close of 74.84 to the US dollar.

At the interbank forex market, the

During the session, the rupee wit-

nessed an intra-day high of 74.74 and

a low of 74.93 against the greenback.

countries to its quarantine list.

against US dollar.

market sentiment.

tion and retail sales data in China.

durables closed higher.

indices fell up to 1.02 per cent.

okyo settled with gains.

BSE auto, bankex, finance, oil and

market hours on Thursday showed.

Markets retreat for 3rd

day; bank stocks bleed

Finance Minister Nirmala

Sitharaman in the budget for 2020-21 had provisioned receipt of Rs 60,000 crore in dividend from the RBI and other banks to bridge the fiscal deficit. But, government officials had expected more from the Reserve Bank of India (RBI).

The government is facing a larger-than-expected shortfall in revenue as the economy heads for its first full-year contraction since 1979. With the COVID-19 pandemic disrupting businesses, it is widely speculated that tax collections

At the same time, the government is being forced to spend more to cushion the blow from the pandemic, straining the budget deficit.

The central bank largely earns profit through its trading of currencies and government bonds as well as printing of notes and coins.

Part of these earnings is set aside by the RBI for its operational and contingency needs, while the rest is transferred to the government in the form of

Bank credit grows

11.11 pc: RBI data

 $B_{
m per}^{
m ank}$ credit and deposits grew 5.51 per cent and 11.11 per cent to Rs

102.65 lakh crore and Rs 141.61 lakh

crore, respectively, in the fortnight

ended July 31, according to the latest

2019, bank credit and deposits were at

Rs 97.29 lakh crore and Rs 127.44 lakh

On a year-on-year (y-o-y) basis, non-food bank credit growth

was at 6.7 per cent in June 2020,

nearly the same as in May 2020 but

lower than the growth of 11.1 per cent

In the fortnight ended August 2,

5.51 pc, deposits

PTI MUMBAI

data from the RBI.

crore, respectively.

RBI's financial year runs

is scheduled to be harmonised with the government's April-March fiscal starting FY22. In the current year, the RBI will have a nine-month financial year, ending in March.

The central bank's payout to the government last year was more due to a one-time transfer on account of the adoption of a new economic capital framework that calls for maintaining the level of the contingency risk buffer, or realised equity, at between 5.5 and 6.5 per cent of RBI's bal-

transportation of gold: GoM

Ctates can make e-way bill mandatory Ofor transportation of gold within the respective states but implementing it for inter-state movement across India will not be feasible, a state-ministerial panel suggested on Friday.

The group of ministers (GoM), comprising finance ministers of Kerala Bihar, Gujarat, Punjab, Karnataka and West Bengal, set up to examine feasibility of implementation of e-way bill for movement of gold and precious stones met via video conferencing.

"It was decided that if any state wants to implement e-way bill for gold, they can do so for intra- or within the state transportation," Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi told PTI

Allow e-way bill for intra-State

PTI NEW DELHI

Gr Noida brings open-ended scheme of residential buildings

Greater Noida: On the occasion of Independence Day, the Greater Noida Authority is bringing an open-ended scheme of residential buildings from date, GNIDA CEO Narendra Bhooshan said. Under which you can decorate the dream of dwelling by not applying for the request. It is a special occasion for them that if they are living on rent or are confused with the breathtaking plans of the builders, then the authority is providing them a lot of opportunity to choose the building of their choice in this scheme.



METRO RLY OBSERVES CLEANLINESS WEEK

Kolkata: Metro Railway has undertaken a spe-On weekly basis, the rupee inched up 3 paise against the US dollar. *PTI* cial cleanliness drive in order to observe Cleanliness Week from 10th August to 16th August, 2020. Metro officers and staff have been participating in this drive in order to make Metro premises more beautiful and clean and augment

On Friday for the fifth consecutive days cleanliness drives were organised at North-South and East-West Metro stations in which Metro staff participated in numbers maintaining all COVID-19 protocols.

During this week, special focus is given on collection and disposal of plastic wastes in and around Metro premises.

MEYER APPAREL LIMITED

CIN: L1810HR1993PLC032010

egd. Office: #412, 4th Floor, Orient Beste

Business Tower, Khandsa, Sector-34,

Gurugram -122004, Haryana, India

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, Notice is hereby given tha

Apparel Limited is rescheduled and will now be

held on Thursday, 20th August, 2020 at 2:00 p.m. at # 412, 4th Floor, Orient Bestech Business

Tower, Khandsa, Sector-34, Gurugram

122004. Arrangement will also be made for participation of Board members electronically

through video - conferencing facility.

This notice is also available on the website of the company @ www.meyerapparel.com and on the website of BSE Ltd @ www.bseindia.com.

For Meyer Apparel Limite

Associate Company Secretary

Nitasha Bakshi

बिहार 🥻 सरकार

प्राचार्य का कार्यालय,

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय

निविदा आमंत्रण शूचना

भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के मापदण्ड, को पूर्ण करने हेतु दरमंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विमागीय पुस्तकालय के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में मेडिकल पुस्तकों नवीनतम एवं मूल संस्करण, विमिन्न विषयों/ विशेषताओं के जर्नल (राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय) की आपूर्ति करने हेतु प्रकाशकों, प्राधिकृत वितरको अथवा अधिकृत विक्रताओं

जो FPBA , नई दिल्ली के मापदण्डों के शर्तों को पूरा करते हैं एवं जीठ ओठ सीठ के द्वारा पूस्तकों / जर्नलों की आपूर्ति के प्राधिकृत

एजेन्ट हों वे निम्न शर्त्त और स्थिति (Terms and Condition) के साथ विज्ञापन के प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर मुहरबन्द लिफाफे में निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा समर्पित करेंगे। 21 वे दिन अगर किसी प्रकार का अवकाश रहता हैं या किसी अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है तो उससे अगले दिन तक निविदा प्राप्त की जायेगी। निविदा प्राप्त

करने की अंतिम तिथि के अगले दिन क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि

कर सकते हैं या कार्यालय के वेबसाईट– www.darbhangamedicalcollege.com पर देखी जा सकती है।

Author | Name of books

where the company's shares are listed.

Place : Gurugram

Date : August 14, 2020

meeting of the Board of Directors of Meyer

Milaap introduces free fundraising

New Delhi: For charitable organisations and personal causes during the Covid pandemic, Milaap is introducing a PUBLIC NOTICE
My Client Khadak Singh S/o Late Talvir
Singh R/o Plot No-T-65, Block-T, Shukar free fundraising platform for the upcoming festive season from the Independence Day. Bazar Road, Uttam Nagar West, N. Delhi-59

"We made Milaap free for all relief related fundraisers as wife Pawan Pariyar/Neelam, their daughte it made perfect sense for disobedient & harmful towards my client. extending this 0% fee to all fundraisers," said Mayukh Choudhury, co-founder and any manner he or she all do so at his/he CEO of Milaap.

WESTERN RAILWAY

TRACK MACHINE WORK

e-Tender Notice No. W641/22/19/10A

dated 13.08.2020, Chief Engineer (TMC).

Western Railway, HQ Office, Churchgate

Mumbai-400 020. Invites e-Tender as pe

the details given below: (i) e-Tender No.

W641/22/19/10A (ii) Name of the Work

Tamping Tools for Tamping machines

(Make: Plasser or equivalent). (iii)

Approximate Cost : Rs. 30,12,140.25,

(iv) Earnest Money Deposit : Rs

60,250.00, (v) Tender Closing Date

15.09.2020 at 11.00 Hrs. (vi) Tender

Opening Date: 15.09.2020 at 11.15 Hrs

(vii) Regarding detailed notice containing

cost of tender document (non refundable)

EMD, eligibility criteria, similar nature of work, detailed tender conditions. Please

visit www.ireps.gov.in. Manual offers wi

Like us: www.facebook.com/WesternRly

Procurement of Tungsten Carbide Tip

for the same in any manner. Ramesh Anand (Advocate), Ch-68 Tis Hazar PRAKASH WOOLLEN &

has disowned his Son Kamal Singh & his

arika from his movable and immov

My Client has also severed all his relations

with them. If anybody deals with them i

own risk. My Client shall not be responsible

SYNTHETIC MILLS LIMITED CIN - L17291LIP1979PLC004804 Regd. Office: 18th Km Stone, Delhi Moradabad Road NH-24, Village Amhera Distt. J. P. Nagar, UP- 244102

Website: www.prakashwoollen.com Email: info@prakashwoollen.com NOTICE

ereby given that pursuant Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation And Disclosure Requirements) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of August, 2020 to consider and take on record the Un-Audited Financial Results for th quarter ended on 30th June, 2020 among

A copy of the said Notice and the Financia shall also be available e Company's website a www.prakashwoollen.com and on Stoc Exchange Website at www.bseindia.com For Prakash Woollen & Synthetic Mills Limited

WHOLETIME DIRECTOR & CFC Place: Village Amhera (Amroha)

REGENT ENTERPRISES LTD Registered Office: E-205 (LGF). r Kailash- II, New Delhi-110 048 Phone:011-29213191 CIN:L15500DL1994PLC153183

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby give that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held at 14/17, Naya Ganj Ghaziahad -201001 on Monday, the 24th da of August, 2020 at 4.00 pm, inter alia, to consider, approve Un-audited Financia Results of the Company for the quarte

20-मेडिकल पुस्तकों / जर्नलों की सूची केन्द्रीय पुस्तकालय में कार्य दिवस में 10 बजे पूर्वाहन से 4बजे अपराहन तक निःशुल्क प्राप्त 21—वित्तीय निविदा में पुस्तकों / जर्नलों की सूची का मूल्य भारतीय रूपये में GST रहित एवं GST सहित Excel Sheet में CD ended on 30th June, 2020. Pursuant to this, the trading window for th insiders shall remain closed upto 48 hour of declaration of the results for a desiginated persons, their immediate relatives and all connected persons as

> Company will be available a FOR REGENT ENTERPRISES LTD Place:New Delhi Vikas Kumai Whole Time Director DIN:05308192

amended. The same Financial Result of the

in July, food prices spike

All Commodities

February to

July 2020

Based on

Wholesale

Price Index

2011-12=100

The wholesale price-based inflation stood at (-)0.58 pc in July, remaining in the negative zone for the fourth straight month even as vegetables and other food items turned costlier. WPI inflation in June was (-) 1.81 per cent, while for the month of May and April it was (-) 3.37 per cent and (-) 1.57 per cent respec-

The annual rate of inflation, based on monthly WPI (Wholesale Price Index), stood at (-0.58 per cent) (provisional) for the month of July, 2020 as compared to 1.17 per cent during

the corresponding month of the previous year," the commerce and industry ministry said in a statement.

Inflation in food articles was at a four-month high level of 4.08 per cent in July, mainly due to sharp rise in vegetable prices. Inflation in vegetables

INFLATION | Last Six Months 25.56 per cent, while in fruits it was (-) 3.03 **Primary Articles** per cent. Inflation in fuel and power basket fell 9.84 per cent in July, compared to 13.60 per cent drop in the previous month. Manufactured products, however, witnessed inflation of 0.51 per cent in July, against 0.08 per cent in June.

Products

ICRA Principal Economist Aditi Nayar said the considerable narrowing in the WPI disinflation in July 2020 relative to the previous month, was along expected lines, with a correction in the index levels for crude oil and mineral oils,

further narrowing of the core disinflation and a rise in food inflation. "The surge in tomato prices and moderate rise in potato prices pushed up the vegetable inflation in July 2020, contributing to the uptick in the inflation for primary food articles to a four-month high.

	VARIOUS WORKS								
Sr. No.	e-Tender Notice No. & Date	Work and location	First Year Reserve Price Rs.	Aprox. cost of Work Rs.	Cost of Tender Form Rs.	EMD Rs.			
1.	CA-11-NFR-OOH- WP-BPark-57 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights of Wall Painting on Boundary walls of Badhwar Park Railway colony facing west, total display area 720 sq. ft., for a period of five years.	(excluding taxes etc.)	₹. 1,56,939/- (excluding taxes etc.)	₹. 1,000/-	₹. 3,200/-			
2.	CA11-NFROOH- LC-UDN-JL-56 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights for erection & display of hoardings at Level Crossing Gates between Udhana and Jalgaon section for 24 Hoardings, total display area 4650 sq. ft., for a period of five years.	etc.)	₹. 24,78,472/- (excluding taxes etc.)	₹. 3,000/-	₹. 49,600/-			
3.	CA-11-NFR- OOH-BA-W-48 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights for erection & display of hoardings at Bandra station West, adjoining to extreme west railway boundary facing station for 6 hoardings of size 20' x 20' each, for total display area of 2400 sq. ft., for a period of five years.	(excluding taxes etc.)	₹. 1,73,52,497/- (excluding taxes etc.)	₹. 5,000/-	₹. 3,47,100/-			
4.	CA-11-NFR- OOH-ADH-E-49 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights for erection & display of hoardings at Andheri station- East, at Km 21/1001 & 21/1001 & 22/1/1001 & Green East, along the Railway boundary wall for 4 hoardings of size 20' x 10' each for total display area 800 sq. ft., for a period of five years.	(excluding taxes etc.)	₹. 81,01,234/- (excluding taxes etc.)	₹. 5,000/-	₹. 1,62,100/			

stood at 8.20 per cent, against

per cent, while for potato it was

69.07 per cent in July. Protein

rich items like egg, meat and fish

saw hardening of prices with

However, onion prices soft-

inflation at 5.27 per cent.

Pulses saw inflation of 10.24

(-) 9.21 per cent in June.

NOTE:- Please visit our website www.ireps.gov.in to download the tender document, corrigendum and further details. Cost of tender and EMD shall be accepted only through online net banking or E-payment gateway. Bidder should regularly visit website to keep themselves updated. For Sr. 1 to 4: Website where Tender form available: www.ireps.gov.in Completion Period: Five Years For Sr. 1: Date & Time of closing of online: submission Upto 15.00 hrs on 10.09.2020 For Sr. 2: submission Upto 15.00 For Sr. 2: submissio hrs on 14.09.2020 For Sr. 3 & 4: submission Upto 15.00 hrs on 15.09.2020

Like us: A www.facebook.com/WesternRly

NORTHERN RAILWAY

NOTICE INVITING TENDER Name of work and its location | 30-Elect-18-T-2020-21-E3 Electrical work in connection with improvement of KKDE, KLE, MSZ, ROK & GGN over Delhi Division. Rs. 91.62 lacs Approx cost of the works in Address of the office Sr. Divil Elect. Engineer/General, New Delhi. Rs. 183300.00 **Earnest Money** Date & time of submission 08.09.2020, 12.00 Hrs. Opening of tender 08.09.2020, 12.00 Hrs.

	nic a notice board	mmm.mcps.gov.m		93774.2534
		& Sr. Divl. Elect. Eng	ineer/General, Nev	w Delhi.
		**		1759/2020
	SERVING	CUSTOMERS W	TH A SMILE	
	WE	STERN RAIL	_WAY	
E-PI	ROCUREMENT TE	NDER NOTICE No.S	6/16/2020 Date	13.08.2020
S.N.	Short De	scription of item	Quantity	T.O.D.
	D DT.DOD		4.41-	00 00 0000

S.N.	Short Description of item	Quantity	T.O.D.
428	Real Time RT PCR	1 No.	28.08.2020
429	Bogie Bolster Arrangement	96 Nos.	04.09.2020
430	Paint Aluminium	30160 Ltrs.	05.09.2020
431	Tensioning device Assly.	315 Set	05.09.2020
432	Vinyl Coated Upholstery Fabric	80917 Mtrs.	07.09.2020
433	Pair of Leather Hand Gloves	12587 Pair	07.09.2020
434	Set of Lock Assly.	43 set	07.09.2020
435	Cab Activating Key Switch (POS.N0.125).	37 Nos.	07.09.2020
436	Main compressor 1745 LPM	80 Nos.	07.09.2020
437	High Reach Pantograph.	48 Nos.	07.09.2020
438	CCPU Side Bearer Pad Assy. 22HS Bogies	919 Nos.	07.09.2020
439	Centre Pivot Top for Casnub 22 HS(Mod-I) Bogie	1166 Nos.	07.09.2020
440	Relay QNA1 8F/8B	1005 Nos.	08.09.2020
441	Bogie Frame Arrangement	96 Nos.	08.09.2020
442	Wheel Profiling Inserts Kennametal	2371 Nos.	09.09.2020
443	R/M Paint Black	108400 Ltrs.	09.09.2020
144	Set of VRLA Battery 110V,70AH	203 Set	09.09.2020
45	Main Entrance Door Mounting (R.H.)	23 Nos.	09.09.2020
146	IOH Maintenance kit	20 Set	09.09.2020
147	R/M Paint Synthetic Enamel, Exterior	23977 Ltrs.	10.09.2020
148	Roof Mounted AC Package Unit	35 Nos.	10.09.2020
49	Pressure Sensor Convertor Oil	21 Nos.	10.09.2020
150	Carbon Brush for HITACHI Type Traction	33399 Nos.	11.09.2020
451	Set of PU Lining	4531 Set	11.09.2020
152	CCPU Side Bearer pad Assy. 22NLB bogie	859 Nos.	11.09.2020
453	Slack adjuster complete type IRSA-750 BCNHL/BOXNHL Wagon	259 Nos.	11.09.2020
154	Two Part Sliding Door Arrangement	200 Nos.	11.09.2020
155	Copper Catenary Wire(19/2.10MM) 65 Sq.mm	136000 Mtrs	12.09.2020
456	Kit set for New Version MEMU Parking Brake Item	48 Sets	14.09.2020
	Reverse Auction		
1	Supply, Installation, Testing & commissioning of Hydraulically Operated Lifting & Swivelling	48 Sets	01.09.2020
2	Microprocessor Based Control and Fault Diagnostic System	800 Sets.	01.09.2020
3	Air Brake Equipment	48 Sets	03.09.2020
1	Fabrication & Supply of Complete Body Shell Assly.	48 Sets	04.09.2020
5	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Traction Engine and Electrics	48 Sets	07.09.2020
	A	25 Mar	44 00 0000

35 Nos. 11.09.2020 CORRIGENDUM: Please visit www.lreps.gov.in for corrigendum issued to following tender: Sr.No.320 of Tender Notice No. S/13/2020 Dt.23.07.2020 (Microprocessor based control and fault diagnostic system (Retender at Sr.No.1 RA above)) and Sr.No.418 of Tender Notice No. S/15/2020 dt.06.08.2020 (8V, 290AH Lead Acid starter

battery) are deleted from Notice. Regarding detailed notice EMD, Purchase restrictions and detailed tender conditions, please visit website www.ireps.gov.in. and www.wr.indianrailways.gov.in. ANJ-06 Like us: f www.facebook.com/WesternRly - Follow us: www.twitter.com/Wester

SUPRA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED 1212, Hemkund Tower,89, Nehru Place, New Delhil – 110 019 Phone: 011-41608996, Website: www.supraindustrialresources.in Email: supraexchange.com@gmail.com CIN: L65999DL1985PLC019987 tandalone Unaudited Financial Results for the Quarter End

S.	Particulars	Quarter Ending	Previous Quarter Ended	Corresponding three months Ended in the previous year 30-Jun-19	
No	(41,000) (40,000) (41,000)	30-Jun-20	31-Mar-20		
		Unaudited	Audited	Unaudited	
1	Total income from operations (net)	0.91	0.99	1.09	
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax*	(1.28)	(1.87)	(1.86)	
3	otal Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.28)	(1.87)	(1.86)	
4	Equity Share Capital	25.00	25.00	25.00	
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	12.26	12.26	18.60	
6	Earnings Per Share (from ordinary items) (of Rs.10/- each) (In Rs.) 1. Basic: 2. Diluted :	(0.50)	(2.55)	(0.74)	

The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30.06.2020 Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015. The full financial results is available on the company's Website www.supraindustrialresources.in and on the stock exchange website www.msei.in The Unaudited standalone financial results of the Company for the guarter ended 30.06.2020 have been reviewed

by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14.08. 2020 This statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recongnised accounting practices and

for Supra Industrial Resources Ltd.,

Date : 13.08.2020 Place : New Delhi

Rajat Agarwa Director (DIN 00266205)

SUPERIOR FINLEASE LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC061995

Regd. Off: NS-92, Khasra No-33/21, Ranaji Enclave, Najafgarh, Near Arjun Park Bus Stand New Delhi -110043

Email id: superiorfinlease@gmail.com; Website: www.superiorfinlease.com Extract of Statement of Un-audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2020

	Particulars	S	TANDALON	E	CONSOLIDATED			
SI		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended	
No.		30-06-20 Un-audited	30-06-19 Un-audited	31-03-20 Audited	30-06-20 Un-audited	30-06-19 Un-audited	31-03-20 Audited	
1	Total Income from operations	23.10	22.85	102.33	23.10	22.85	102.33	
2	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	15.74	8.16	22.09	15.74	8.16	22.09	
3	Net Profit for the period Before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.74	8.16	22.09	16.13	8.16	22.09	
4	Net Profit for the period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.74	6.04	16.31	16.13	6.04	16.31	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	15.74	4.95	18.91	16.13	4.95	18.91	
6	Equity Share Capital	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as shown in the previous year	3.31	(8.67)	(11.27)	3.31	(8.67)	(11.27)	
8	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic and Diluted EPS (before Extra-ordinary items) (in Rs.)	0.52	0.20	0.54	0.54	0.20	0.54	
	(b) Basic and Diluted EPS (after Extra-ordinary items) (in Rs.)	0.52	0.20	0.54	0.54	0.20	0.54	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the Stock Exchange Website (www.msei.in and www.bseindia.com) and Company's website www.superiorfinlease.com.

(RAJNEESH KUMAR

SI.No.

के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

22—निविदा हेतु Excel Sheet का प्रारूप।

PR. No. 004895 (Health) 2020-21

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु 👳 топ Free No.: 🕇 🛛 पर संपर्क कर सकते हैं। खाव सामग्री- संबंधी किसी तरह की जानकारी अथवा सुझाव हेतु दूरभाष संख्या ०६१२-२२१७४६ पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Price

Discount

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय

बीच हुए 31वें मुकाबले में सेरेना ने 6-2 7-5 से पराजित किया। जिल

पहला सेट गंवाने के बाद वापसी की टेचमान ने भी पांचवीं वरीय यूलिया

पुतिंतसेवा पर 6-2 6-2 से जीत दर्ज

कर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया और

अब उनका सामना सिसि बेलिस से

लाहिडी ने विंधाम चैंपियनशिप में एक अंडर का कार्ड खेला

लाहिडी ने पांच महीने के बाद वापसी करते हुए विधाम चैम्पियनशिप के पहले दौर मे गुरुवार को एक अंडर ६९ का कार्ड खेला जबकि खराब मौसम के कारण अर्जुन अटवाल का खेल परा नही हुआ।

शुभंकर पहले दौर के बाद संयुक्त 71वें स्थान पर

न्यूपोर्ट (वेल्स)। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने यहां पहले सेल्टिक क्लासिक गोल्फ दर्नामेट के पहले दौर मे मजबूत शुरुआत की लेकिन बाद में लय खो बैठे और इवन-पार ७१ व ही कार्ड खेल पाए।

त्वेसा ने स्कॉटिश ओपन अच्छी शुरूआत की

नॉर्थ बेरविक (स्कॉटलैंड)। भारतीय गोल्फर त्वेसा मलिक लेडिज स्कॉटिश ओपन के पहले दिन के खेल के बाद पार स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर है। मार्च मे दक्षिण अप्रविक्वी महिला ओपन के बाद त्वेसा का पहला प्रतिस्पर्धी मुक्तबला है। उन्होंने चार बर्डी और इतने ही बोगी लगाए।

भारतीय-अमेरिकी गोल्फर अमन क्वार्टर फाइनल में

ओरेगॉन (अमेरिका)। भारतीय-अमेरिकी गोल्फर अमन गुप्ता ने १२०वी यूएस एमेच्योर चैम्पियनशिप के अंतिम ३२ और प्री-कार्टर पाइनल जीतकर सार्टर पाइनल मे प्रवेश किया।

433 अंक लुढक भाषा। मुंबई

शेयर बाजारों में लगातार

तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स

शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट

का सिलसिला जारी रहा। बैंकिंग, वित्तीय और उपभोग से

जुडे शेयरों में भारी नुकसान से सेंसेक्स में 433 अंक की

बड़ी गिरावट आई। वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रुख से

भी यहां धारणा प्रभावित हुई। कारोबारियों ने कहा कि वृहद

आर्थिक आंकड़े कमजोर रहने और रुपए में गिरावट से भी

बाजार प्रभावित हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला

सेंसेक्स दिन के उच्चस्तर से 663 अंक नीचे आया और

अंत में 433.15 अंक या 1.13 प्रतिशत के नुकसान से

37,877.34 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक

एक्सचेंज का निफ्टी 122.05 अंक या 1.08 प्रतिशत के

नुकसान से 12,000 अंक के स्तर से नीचे 11,178.40

अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक

के शेयर में सबसे अधिक 2.81 प्रतिशत का नुकसान रहा।

एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस,

आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक और

इंडसइंड बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर

सन फार्मा, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाइटन और इन्फोसिस

के शेयर 2.04 प्रतिशत तक चढ गए। साप्ताहिक आधार

पर सेंसेक्स 163.23 अंक या 0.42 प्रतिशत नकसान में

रहा। वहीं साप्ताहिक आधार पर निफ्टी 35.65 अंक या

0.31 प्रतिशत नीचे आया। जियोजीत फाइनेंशियल

सर्विसेज के शोध प्रमख विनोद नायर ने कहा, दिन में

कारोबार के दौरान वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख से

धोनी शिविर में पसीना बहायेंगे

महेन्द्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपरिकंग्स के टीम के उनके साथी खिलाड़ी इंडियम प्रीमियर लीग होने से पहले अभ्यास शिविर में भाग लेने के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे। एम ए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार से शुरू होने वाले एक सप्ताह के शिविर के लिए धोनी के अलावा सुरेश रैना, दीपक चाहर, पीयूष चावला और केदार जाधव भी यहां पहुंचे। सीएसके के एक अधिकारी ने कहा, टीम के 16 भारतीय खिलाडियों में से धोनी सहित 13 या 14 खिलाडी शिविर को हिस्सा होंगे।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान

ए खिलाडी कोविड-19 की जांच कराकर यहां पहुंच रहे है, ऐसे में उनका अगला परीक्षण 21 अगस्त को यूएई खाना होने से 72 घंटे पहले होगा। आईपीएल की तीन बार की चैम्पियन टीम ने धोनी और दूसरे खिलाडियों के चेन्नई पहुंचने की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पेज पर माद्या किया है। पिछले साल जुलाई में एकदिवसीय विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भारतीय

🕨 सीएसके खिलाड़ी आईपीएल शिविर के लिए चेन्नई पहुंचे

(आईपीएल) के लिए यूएई खाना टीम की हार के बाद से धोनी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। हरफनमौला रविंद्र जडेजा को छोडकर लगभग सभी खिलाडियों के शिविर में भाग लेने की उम्मीद है।सीएसके के एक अधिकारी ने कहा कि जडेजा व्यक्तिगत कारणों से अभ्यास शिविर में भाग नहीं लेंगे और टीम की रवानगी से पहले टूर्नामेंट स्थल पर उनसे जुड़ेंगे। अधिकारी ने कहा कि सभी खिलाडियों का यहां दो बार जांच होगा और अगर इस जांच में उनका नतीजा निगेटिव आया तभी उन्हें दुबई जाने की अनुमति होगी। फ्रेंचाइजी ने तमिलनाडु के आठ नेट गेंदबाजों को चुना है और वे भी टीम के साथ यएई की यात्रा करेंगे।

सीएसके ने इससे पहले 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए दो मार्च से अभ्यास शिविर लगाया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उसे बीच में रद्द करना पडा। धोनी ने हालांकि उस शिविर में

Particulars

Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax*

otal Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in

Earnings Per Share (from ordinary items) (of Rs.10/- each)

*The Company does not have any extraordinary item to report for the above period

1 Total income from operations (net)

the Balance Sheet of previous year)

(In Rs.) 1. Basic: 2. Diluted

policies to the extend applicable

Place: New Delhi Date: 14.08.2020

SUPRA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

1212, Hemkund Tower,89, Nehru Place, New Delhil – 110 019
Phone: 011-41608996, Website: www.supraindustrialresources.in
Email: supraexchange.com@gmail.com CIN: L65999DL1985PLC019987

Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2020

Quarter Ending

30-Jun-20

Unaudited

0.91

(1.28)

12.26

(0.50)



अभ्यास किया था जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक भी पहुंचे थे। कोविड-19 महामारी के कारण हालांकि इस बार स्टेडियम में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।तमिलनाड् सरकार द्वारा एमए चिदंबरम स्टेडियम की में सविधाओं का उपयोग करने की मंजुरी के बाद इस शिविर की योजना बनाई गई थी। राज्य for the same in any manner. Ramesh Anand (Advocate), Ch-68 Tis Hazari में हालांकि कोविड-19 के मामले तीन

Rs. In Lakhs (Except EPS)

Corresponding three months Ende

the previous year

1.09

(1.86)

18.60

(0.74)

Rajat Agarwa

(DIN 00266205)

30-Jun-19

Previous

Quarter Ended

31-Mar-20

Audited

0.99

(1.87)

12.26

(2.55)

for Supra Industrial Resources Ltd.,

PUBLIC NOTICE
My Client Khadak Singh S/o Late Talvir
Singh R/o Plot No-T-65, Block-T, Shukar Bazar Road, Uttam Nagar West, N. Delhi-59 has disowned his Son Kamal Singh & his wife Pawan Pariyar/Neelam, their daughter Niharika from his movable and immovable Property of my client, due to misbehaviour, disobedient & harmful towards my client. My Client has also severed all his relations with them. If anybody deals with them in any manner he or she all do so at his/her n risk. My Client shall not be responsible

सार्वजनिक सूचना दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए यदि नीचे उल्लिखित संपत्ति की बिक्री / खरीद के लिए कोई है सचना यहाँ दी गई है कि मेरे मवक्किल श्री एस एस साई बाबा पुत्र स्वर्गीय शंकर नारायण, प्लॉट नंबर 39, सरस्वती भवन, ए-1, अपर ग्राउंड फ्लोर, ए-ब्लॉक, शांति कुंज, वसंत कुंज, चर्च माल रोड नई दिल्ली- 110070 में रहते हैं तथा सुनील चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री रिसाल सिंह, जो एफ 130/ए, गौतम नगर, नई दिल्ली के रहने वाले हैं, से उनक संपत्ति एफ 130/ए. तीसरी मंजिल, गौतम नगर, में स्थित फ्लैट जिसका 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र हैं जिसमें एक बेडरूम वाल कमरा, शौचालय, छत के अधिकारों के साथ खरीदने का इरादा। उक्त फ्लैट सुनील बौधरी पत्र स्वर्गीय श्री रिसाल सिंह के नाम पर है और उनके पास कानून है और उक्त फ्लैट को बेचने का अधिकार है

इस नोटिस के प्रकाशन से 14 दिनों की अवधि के भीतर दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियों के साथ, उक्त पलैट में अधिकार, ब्याज या शीर्षक के हस्तांतरण के लिए दावेदार / आक्षेपकर्ता से दावा या आपत्ति अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता आमंत्रित करता है। दावे/आपत्ति का समर्थन करने के लिए। यदि ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो बातचीत पूरी हो जाएगी और यह अनुमान लगाया जाएगा और / या समझा एगा कि इस संपत्ति पर दावे / आपत्तियां नहीं हैं और यदि कोई है, तो उसे माफ कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है और मेरा मुवक्किल ऐसे दावों के संदर्भ के बिना खरीदारी को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होगा। तत्परचात किए गए ऐसे दावों के संदर्भ के बिना खरीदारी को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रहें।

परिवेश सिंह, (अभिमाषक) बी -122, जीडी कॉलोनी, मयूर विहार फेज -3, दिल्ली- 110096 9891662235, 9278724786,

रीजेन्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड पंजी. कार्यालयः ई-205 (एलजीएफ), ग्रेटर कैलाश-।।, नई दिल्ली-110048 फोनः 011-29213191

र्ड-मेल : info@regententerprises.in सीआईएनः एल15500डीएल1994पीएलसी153183

तदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण पेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक प्तोमवार, 24 अगस्त, 2020 को अप. 04.00 बजे 14/17. नया गंज, गाजियाबाद-201001 में आयोजित की जाएगी. जिसमें अन्य विषयों के साथ जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेत् कम्पनी के प्र-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित तथा प्रनुमोदित किए जाएंगे।

इसके अनुसरण में, अंतरंगियों हेत् व्यापार खिडकी (ट्रेडिंग विन्डो) सभी पदनामित व्यक्तियों, उनके निकट सम्बन्धियों और यथा संशोधित समी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।

के उक्त विल्तीय परिणा

rises.com पर उपलब्ध होंगे। वास्ते रीजेन्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड विकास कुमार पर्ण कालिक निदेशक

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 14-08-2020 ढीआईएन : 05308192

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

भाषा। लेक्सिंगटन

समाप्त 30-06-2019 31-03-202 अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षि प्रलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षि 1,542.81 2,946.19 2,203.56 1,542.81 परिचालन से कुल आय (शुद्ध) 214.61 9.69 16.51 9.69 अवधि हेतु शुद्ध लाम तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर से पूर्व 9.69 215.76 16.51 9.69 (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) 166.51 अवधि हेत् शृद्ध लाभ, कर पश्चात 12.41 18.32 12.41 (अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों के बाद) अवधि हेतु कुल समावेशी आय खीजसमें अवधि हेतु लाम (कर पश्चात) तथा 135.97 18.32 5.80 5.80 अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक) 864.00 864.00 864.00 864.00 प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पहलें) (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक) (क) मुल (रू.) 0.14 1.93 0.21 0.14 (ख) तनुकृत (रू.) 0.14

सेरेना ने 31वीं भिड़ंत में वीनस को हराया

वीनस विलियम्स को 3-6 6-3 6-4 शेल्बी रोजर्स से होगा जिन्होंने कनाडा होगा जिन्होंने जेसिका पेगला को 6-3

डेल्टन केबल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : डेल्टन हाउस, 4801, गरत राम रोड, 24, दश्यागंज, नई दिल्ली-1110002 वेबसाइट :www.deltoncables.com, ईं-मेल : cs@deltoncables.com, सीआईएन : एल31300डीएल1964पीएलसी004255

से शिकस्त दी। सेरेना और वीनस के की क्वालीफायर लेलाह फर्नांडिज को 6-2 से मात दी।

तेईस बार की ग्रेंडस्लैम चैम्पियन और अगले दौर में जगह बनाई। अब

सेरेना विलियम्स ने टॉप सीड ओपन शीर्ष वरीय सेरेना का सामना अमेरिका

के दूसरे दौर के मैच में अपनी बहन की वाइल्डकार्ड से प्रवेश करने वाली

(1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज

(3) उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित और तद्परांत निदेशक मंडल द्वारा 14-08-2020 को आयोजित उनकी बैठक

कते एवं हिते निदेशक मंडव विवेक गुप्त (प्रबंध निदेशक



स्थान : दिल्ली





कार्यालय नगर पालिका परिषद खोडा-मकनपूर, गाजियाबाद पत्र संख्याः-1193 / न०पा०परि०खो०म०-2020-21 दिनाँक:-13.08.2020

सन्देश / अपील

समस्त नगरवासियों को 74 वें स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक शुभ कामनाएं, देते हुए पालिका अपील करती है कि, नगर की बेहतरी के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें-

 कोरोना वायरस (कोविड—19) संक्रमण से बचाव हेतु, मास्क अनिवार्य रूप से लगायें और नियमित अन्तराल में साबुन से 40 सेकेण्ड तक हाथ अवश्य घोयें तथा अपनी पूरी दिनचर्या में दो गज की दूरी बनायें रखें, जब तक बहुत जरूरी न हो, आप अपने घरों से न निकलें। किसी भी प्रकार की भीड़ न तो बनने दें और न ही उसका हिस्सा बनें।

निःशुल्क टेली मेडिसिन चिकित्सकीय उपचार हेतु "Ghaziabad Tele Upchaar App" गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।

कुडा/अपशिष्ट/प्लास्टिक(कूडा/कचरा) सार्वजनिक रूप से ने जलाया जाये ,इससे वायु प्रदुषण फैलता जिससे विभिन्न प्रकार की जानलेवा बिमारियां फैलती हैं। ठोस अपशिष्ट (कूडा/कचरा) को सडकों के किनारे ना फेके और न ही नाला-नालियों में फैंके, इससे नाले जाम हो जाते हैं।

प्लास्टिक से बने समस्त उत्पाद यथा दोने, चम्मच, प्लैट व डिस्पोजेबल क्राकरी व पन्नी की थैलियों का प्रयोग कदापि न करें, इसे उ०प्र० सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यदि आकस्मिक निरिक्षण के दौरान, प्लास्टिक से बने उत्पादो व पन्नी की थैलियों का प्रयोग होते पाया गया या स्टोर किया गया, तों, भारी जुर्मानाकरते हुए, जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवन निर्माण सामग्री / अवशेष को सड़कों के किनारे न रखें तथा यदि अकिस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी की सामग्री/अवशेष सड़कों के किनारे रखी पायी गई, तो उस पर, मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०), नई दिल्ली के निर्देशानुसार अंकन 50000 / -रूनयें का जुर्माना किया जायेगा।

भवन निर्माण करने से पूर्व, भवन मानचित्र व दस्तावेजी साक्ष्य पालिका में प्रस्तुत करे।पालिका क्षेत्र में भवन निर्माण, जिसमें भू-तल पर पार्किंग व रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। पालिका क्षेत्र में बेसमेन्ट बनाना पतिबन्धित करदीया गया है, जो ऐसा करता पाया जायेगा, उस पर भारी जुर्माना एंव मुकदमा दर्जकराया जायेगा ।

जन्म-मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा 21 दिन के अन्दर करायें। विकास कार्यों में नगर पालिका का सहयोग एंव मार्गदर्शन करें।

सरकारी सम्पत्ति पर अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण करने तथा अवैध कब्जेदारी एंव मू-माफियाओं की पहचान में पालिका को सहयोग करें और उनके नाम/पतें, प्रमाण सहित बन्द लिफाफें में पालिका कार्यालय में भेज दे। आपकी पहचान गुप्त रखी जायेगी।

(कृष्ण कुमार भड़ाना) (रीना देवी) अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष न0पा0परि0खोड़ा—मकनपुर, न०पा०परि०खोड़ा—मकनपुर, गाजियाबाद गाजियाबाद

सरकार को ५७,१२८ करोड़ स्प्राए का लामांश देगा रिजर्व बैंक

भारतीय बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए।

नर्ड दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए के लाभांश भगतान की मंजरी दे दी है। यह कदम बजट उम्मीदों के अनुरूप है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार के राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई इससे नहीं हो पाएगी। बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने पर अपनी सहमति दे दी है। पिछले साल केंद्रीय बैंक ने सरकार को 1.76 लाख करोड रुपए हस्तांतरित किए थे। इनमें से 1.23 लाख करोड रुपए लाभांश के रूप में तथा 52,637 करोड़ रुपए केंद्रीय बैंक की संशोधित आर्थिक पूंजी की व्यवस्ता (ईसीएफ) के प्रावधानों के तहत अधिशेष पूंजी के रूप दिए गए थे। बोर्ड ने आपात जोखिम के लिए पूंजी बफर का अनुपात 5.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया हैं। गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई में शुक्रवार को हुई बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया। वह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। यह केंद्रीय बोर्ड की 54वीं बैठक थी। बोर्ड की बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों तथा केंद्रीय बैंक द्वारा कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से उबरने के लिए किए

गए मौद्रिक, नियामकीय और अन्य उपायों की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से 60,000 रुपए के लाभांश का प्रावधान किया था। लेकिन सरकारी अधिकारी रिजर्व बैंक से कुछ अधिक प्राप्ति की उम्मीद कर रहे थे। कोविड-19 महामारी के बीच सरकार की राजस्व प्राप्ति अनुमान से कहीं अधिक घटने की संभावना है।



CHANGE OF RELIGION I, Shashi, D/o. Rishipal,

R/o.P-19/6, second floor, Gali No. 6, Batla House, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my religion Hindu to Islam (Muslim) w.e.f. 13.08.2020.

Date: 13.08.2019 Place: Muzaffarnagar PD(8716)A

सूपीरियर फिनलीज लिमिटेड

सीआईएन : एल74899डीएल1994पीएलसी061995 पंजी. कार्यालय : एनएस–92, खसरा नंबर 33/71, राणाजी एन्तरेव, नजफगढ़, निकट अर्जुन पार्क बस स्टैंड, नई दिल्ली–110043 ई–मेल आईडी : superiorfinlease@gmail.com; वेबसाइट :www.superiorfinlease.com 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापशीक्षत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30.06.2020 Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015. The full financial results is available on the company's Website www.supraindustrialresources.in and on the stock exchange website www.msei.in

The Unaudited standalone financial results of the Company for the quarter ended 30.06.2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14.08. 2020.

This statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recongnised accounting practices and

								(0. 0101 1)	
1	页.	विवरण		पृथक्कृत		समेकित			
1	₹i.		तिमाही उ	समाप्त	वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त		माप्त	वर्ष समाप्त	
-			30-06-20	30-06-19	31-03-20	30-06-20	30-06-19	31-03-20	
ı			अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
ı	1	प्रचालनों से कुल आय	23.10	22.85	102.33	23.10	22.85	102.33	
	2	अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	15.74	8.16	22.09	15.74	8.16	22.09	
l	3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	15.74	8.16	22.09	16.13	8.16	22.09	
	4	अवधि हेतु शुद्ध लाम, कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	15.74	6.04	16.31	16.13	6.04	16.31	
	5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	15.74	4.95	18.91	16.13	4.95	18.91	
١	6	इक्विटी शेयर पूंजी	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	
	7	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है	3.31	(8.67)	(11.27)	3.31	(8.67)	(11.27)	
ĺ	8	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/— प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु) —							
١		(क) मूल एवं तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पूर्व) (रू. में)	0.52	0.20	0.54	0.54	0.20	0.54	
		(ख) मूल एवं तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	0.52	0.20	0.54	0.54	0.20	0.54	
ı	नोट	: जपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन दायित्व :	और पकटीकर	ण अधेशाएं)	विनियमावली	2015 க் செ	नियम ३३ के	तहत स्टॉक	

नोट : उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सवेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक वास्ते सपीरियर फिनलीज लिमिटे

(रजनीश कुमार निदेशव डीआईएन : 02463693

PARIJAT PAPER MILLS LIMITED CIN: L21012UP1989PLC010589

Reg. Off: Vill-Jat Mujhera 10.6 Km Stone Bhopa Road, Muzaffarnagar - 251308, (U.P) Website: www.parijatpapermills.com, Email id: parijatpapermills@yahoo.com STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2020

				(Millount III Eukila)
PARTICULARS	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
	31.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	442.22	1615.15	1726.83	5967.19
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-40.49	6.67	0.94	66.44
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-40.49	6.67	0.94	66.44
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-40.49	-1.11	0.68	44.19
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	-40.49	-1.11	0.68	44.19
Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	329.00	329.00	329.00	329.00
Other Equity [Reserves (excluding Revaluation	518.85	559.34	515.38	514.69
Earnings per share (of Rs. 10/- each)				
(for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	-1.23	-0.03	0.02	1.34
	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)] Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each) Other Equity [Reserves (excluding Revaluation Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic	PARTICULARS Ended 31.06.2020 (Unaudited) Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period dafter tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total income (Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total income from operations (after Exceptional and/or Extraordinary items) -40.49 -40.49 -40.49 -40.49 -40.49 -40.49 -40.49 -40.49 -40.89 -40.49 -40.89 -40.89 -40.89 -40.89 -40.99 -	PARTICULARS Ended 31.06.2020 31.03.2020 (Unaudited) (Audited) Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total income for the period before tax, exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total income for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)] Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each) Other Equity [Reserves (excluding Revaluation Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic	PARTICULARS Ended Ended Ended Ended Ended 31.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited

. The above results were reviewed by an Audit Committee and thereafter taken on record by the Board o Directors in their meeting on 13.08.2020 after review by an Audit Committee.

 The above is an extract of the detailed format of quarterly & year to date financial results filed with the stoce exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The full format of the quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchang website (www.msei.in) and the company's website (www.parijatpapermills.com)

Amit Mitta (Whole Time Director DIN:00754471

कार्यालय जिला पंचायत गाजियाबाद।

पत्रांकः. 435/नि0वि0/जि0पं0गा0/2020-21

दिनांक:- 14.08.2020

कार्यालय जिला पंचायत, गाजियाबाद ई-निविदा आमंत्रण सूचना

1. जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेस संख्या 2734/33–सेल/2020 दिनांक 19 मार्च 2020 के द्वारा रू0 10.00 लाख से अधिक लागत के 11 निर्माण कार्यों की तकनीको स्वीकृति के क्रम में क्रमांक 07 पर अंकित कार्य की ई-निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है।

2. कार्यालय पत्र संख्या 681/नि०वि०/जि०पं०गा०/2020-21 दिनांक 06.05.20 द्वारा समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक पाईनियर में प्रकाशित ई-निविदा के 68 कार्यों में से क्रमांक, 39 व 40 पर अंकित कार्यों की विभिन्न कारणों से पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्यों की शासकीय वेबसाईट <u>www.etender.up.nic.in</u> पर ई—निविदा आमन्त्रण कार्यक्रम निम्नानुसार है।

1. वेबसाईट पर निविदा प्रकाशिन की तिथि

2. वेबसाइट पर निविदा अपलोड किये जाने की तिथि

3. कार्यालय में मूल प्रपत्रों को जमा करने की तिथि

4. ई-निविदा खोले जाने की तिथि

दिनांक 17.08.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे दिनांक 22.08.20 को सॉय 5.00 बजे तक दिनांक 24.08.20 को सॉय 5.00 बजे तक

दिनांक 24.08.20 को अपरान्ह 03.00 बजे से समस्त निविदाएं खुलने तक।

निविदा मूल्य बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जिला पंचायत, गाजियाबाद के यूनियन बैंक कविनगर खाता संख्या 448402010003855 आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN 0544841 में जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि जमा की पुष्टिस्वरूप अमलेखों की प्रति भी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा इन अभिलेखों (निविदा मूल्य एवं धनराशि) की मूल प्रति अभियन्ता जिला पंचायत गाजियाबाद के कार्यालय में प्राप्त कराई जायेगी। निर्माण कार्यों की सूची, निविदा मूल्य, 2 प्रतिशत घरोद्यर राशि, बी०ओ०क्यू० एंव समस्त शर्ते पूर्ववत रहेगी जो कि उपरोक्त वर्णित शासकीय वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अपलोड किये गये अभिलेखों (निविदा मूल्य एवं घरोहर राशि आदि) की मूल प्रति नियत तिथि को कार्यालय में प्राप्त न कराये जाने वाली निविदाओं पर कोई कार्यवाही

योगेश कुमार अभियन्ता / अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, गाजियाबाद

नही की जायेगी।

लक्ष्मी मावी अध्यक्ष जिला पंचायत, गाजियाबाद